

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 37]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 17 जनवरी 2014—पौष 27, शक 1935

आयुष विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 जनवरी 2014

क्र. एफ-1-13-2013-1-उनसठ.—राज्य शासन एतद्वारा, पंडित उद्घवदास मेहता वैद्य शास्त्री आयुर्वेद सेवा सम्मान स्थापित करने संबंधी विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 13 सितम्बर 2013 में निम्नलिखित संशोधन करता है :—

संशोधन

“उक्त अधिसूचना की कण्डका 6 की 9वीं पंक्ति में शीर्षक “पुरस्कार चयन समिति” जिसके अंतर्गत आयुक्त, आयुष की अध्यक्षता में समिति की संरचना का उल्लेख किया गया है, को “पुरस्कार अनुशंसा समिति” पढ़ा जाए।”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
शशि खन्नी, उपसचिव.